



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930

No. 688]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

सं. 138/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 909(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, चाईनीस ताईपेई और ब्राजील में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित फलैक्सीबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 3907 20 के अंतर्गत आते हैं, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2005-सीमाशुल्क तारीख 24 जनवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 40(अ), तारीख 24 जनवरी, 2005 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/19/2008-डीजीएडी, तारीख 24 जुलाई 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 24 जुलाई, 2008, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, समीक्षा के सम्पन्न होने तक प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से 23 जुलाई, 2009 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) उक्त नियमों के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2005-सीमाशुल्क, तारीख 24 जनवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 40(अ), तारीख 24 जनवरी, 2005 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाये, 23 जुलाई, 2009 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी”।

[फा. सं. 354/148/2003-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 4/2005-सीमाशुल्क तारीख 24 जनवरी, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 40(अ), तारीख 24 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2008

No. 138/2008-Customs

G.S.R. 909(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/19/2008-DGAD, dated the 24th July, 2008, published in the , Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 24th July, 2008, had initiated review in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on import of Flexible Slabstock Polyol, falling under Sub-heading 3907 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, Republic of Korea, Chinese Taipei and Brazil, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2005-CUSTOMS, dated the 24th January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 40(E), dated the 24th January, 2005, and had requested for extension of anti-dumping duty up to 23rd July, 2009, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act and in pursuance of Rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2005-CUSTOMS, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 40(E), dated the 24th January, 2005, namely :—

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

- “3. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 23rd July, 2009, unless the notification is revoked earlier”.

[F.No. 354/148/2003-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :—The Principal notification No. 4/2005-CUSTOMS, dated the 24th January, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No.G.S.R. 40(E), dated the 24th January, 2005.